



सत्यमेव जयते

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168]	दिल्ली, मंगलवार, मई 9, 2017/वैशाख 19, 1939	[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 41
No. 168]	DELHI, TUESDAY, MAY 9, 2017/VAISAKHA 19, 1939	[N.C.T.D. No. 41

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राज्य चुनाव आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 8 मई, 2017

फा. सं. 04 (229) ओ एस डी-1/विधि./सचि./2017/1865.—इस आयोग की सम संख्या दिनांक 13 अप्रैल, 2017 को जारी अधिसूचना को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए इस आयोग ने निर्णय लिया है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के वार्ड सं. 40-E (मौजपुर) के लिए स्थगित मतदान की मतगणना पूर्व घोषित आयोग की उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार 16 मई, 2017 की बजाय अब दिनांक 23 मई, 2017 (मंगलवार) को होगी।

एस. के. श्रीवास्तव, राज्य चुनाव आयुक्त

STATE ELECTION COMMISSION

NOTIFICATION

Delhi, the 8th May, 2017

No. F. 4(229)/OSD.I/Legal/SEC/2017/1865.—In partial modification of this Commission's Notification of even number dated the 13<sup>th</sup> April, 2017, the Commission has decided to conduct the counting of votes for the adjourned poll in Ward No.40E (MAUJ PUR) of East Delhi Municipal Corporation, on 23<sup>rd</sup> May, 2017 (TUESDAY) instead of 16<sup>th</sup> May, 2017 (Tuesday) as notified earlier vide Commission's Notification mentioned above.

S. K. SRIVASTAVA, State Election Commissioner